



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4—अगस्त 10, 2007 (श्रावण 13, 1929)  
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4—AUGUST 10, 2007 (SRAVANA 13, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2007

सं. आर.एस./3(ix)/2007/67-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ मुद्रण सहायक श्री आर. के. त्रिखा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर मुद्रण अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एनेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आर.एस./3(ix)/2007/66-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित मुद्रण अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (पी एण्ड पी) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य

करने के लिए नियुक्त किया है :-

1. श्री विजय सिंह
2. श्री मुकेश कुमार

एनेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आर.एस./3(ix)/2007/65-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में मुद्रण अधिकारी श्री एस. पी. एस. सैनी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर उप निदेशक (पी एण्ड पी) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एनेस मोमिन जार्ज, निदेशक

दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. आर.एस./3(xiii)/2007/81-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ सुरक्षा सहायक श्री मनीष

कुमार को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एनेस मोमिन जार्ज, निदेशक

### लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जुलाई 2007

सं. एफ 15/28/2004/जीएन-5926/ए एन-1--सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की सभापति (श्रीमती सुमित्रा महाजन) के निजी स्टाफ में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव, श्री अशोक वानखेडे की सेवाएँ 30 जून, 2007 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. एफ 15/28/2004/जीएन-5927/ए एन-1--श्री अमोल अच्युतराव पाठक को 1 जुलाई 2007 से, 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की सभापति (श्रीमती सुमित्रा महाजन) के निजी स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अमोल अच्युतराव पाठक की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवा-अवधि के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

3. उनका पदनाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की सभापति का निजी सचिव होगा।

अभिजीत कुमार, निदेशक

### मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. ए-19013/03/2007-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सुश्री माला दत्त, भा.आ.से. (86) को 19 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

### संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2007

सं. 3(2)/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, बिल्कुल अस्थायी हैसियत में और तदर्थ आधार पर श्री ओ. पी. धवन, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 12.07.2007 से 31.10.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

रेवा रानी, अवर सचिव

### अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. 7/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	गोपीनाथन नायर एम. के.	अति विशिष्ट वैज्ञानिक	10.02.2006
2.	रामजोगी के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	01.07.2005
3.	अमरसेकरन सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	01.07.2005
4.	गणेशन वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	01.07.2005
5.	रमेश एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	01.07.2005
6.	रमेश कुमार एम. ओ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	01.07.2005
7.	गंगाधर डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	01.01.2006
8.	सबापति टी. एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	01.07.2005
9.	वासुदेवन आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	01.07.2005
10.	शांबय्या के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ	01.01.2006
11.	चिन्तिस विरुपाक्ष दिगम्बर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	01.07.2005
12.	गीता सेन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	01.07.2005
13.	वरुगीस के. ओ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	01.07.2005
14.	मैथ्यू सी. वर्गीस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	01.07.2005
15.	बिजुकुमार के. एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	01.07.2005
16.	मुनिस्वामी एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	01.07.2005
17.	कृष्ण मूर्ति वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	01.01.2006
18.	पहनि वेलु एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
19.	प्रकाश एम. एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
20.	देबुडलाल दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
21.	विनोद बाबू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
22.	अजी एम. अब्राहम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
23.	रजी जार्ज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
24.	रंजित जी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
25.	अभिलाष पी. एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
26.	सिवरामन के. वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.07.2005
27.	शजीहा एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी	01.01.2006
28.	बालकृष्ण पणिकर वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	01.07.2005

1	2	3	4
29.	पोन्नुस्वामी एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	01.07.2005
30.	अरुण एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	01.01.2006
31.	मुरुगन एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	01.01.2006
32.	अशोक कुमार के. एन.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	01.01.2006
33.	प्रेम कुमार एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	01.01.2006
34.	विकोमन बी.	लेखा अधिकारी	18.01.2006
35.	श्रीनिवासुलु सी. एच.	क्रय एवं भंडार अधिकारी	25.01.2006
36.	बसवण्णा सी. एस.	क्रय एवं भंडार अधिकारी	15.02.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2007-I--अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूरु, में श्री मधुसूदन वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 18.07.2007 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

दिनांक 31 मई 2007

सं. 7/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, मईद्वीगिरि तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	श्रीकांत बम्मीडी	02.06.2005
2.	सिरनाइक माशायख बी निसार अहमद	06.06.2005
3.	आर. सरवणन	10.06.2005
4.	एस. अजित	12.05.2005
5.	आर. तमिल सेल्वन	18.05.2005
6.	कमरान अहमद	24.05.2005

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2007-I--अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला में श्री सुसइमरियन एम. वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई ने, निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 05.04.2006 के पूर्वाह्न से अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2007--अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	गोपालस्वामी एन के	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	28.02.2006
2.	मोहम्मद अलि जिन्ना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.03.2006
3.	रामसुब्रमणियन ए	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.03.2006
4.	जार्ज वर्गीस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.06.2006
5.	ओम प्रकाश वार्धेय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.06.2006
6.	जेकोब देवदास ए	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी	31.05.2006
7.	राम राव पी एन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	30.06.2006
8.	वेलप्पन ए जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	31.05.2006
9.	तिरविय प्रसाद के	स्टेशन अधिकारी-1	31.05.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2007--अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूरु में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	ज्ञान गौधी	अति विशिष्ट वैज्ञानिक	31.01.2006
2.	डॉ. के. राममूर्ति	वैज्ञानिक/अभियंता-एच	31.07.2005
3.	ललिता रामचंद्रन	वैज्ञानिक/अभियंता-जी	31.12.2005
4.	एन. के. गोपालस्वामी	वैज्ञानिक/अभियंता-जी	28.02.2006
5.	एम. जयरामन	वैज्ञानिक/अभियंता-जी	31.01.2006
6.	पी. वी. बालकृष्णन	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी	30.04.2005
7.	इंदिरा एम. सी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी	31.10.2005
8.	दंडपाणी एस. आर.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी	31.10.2006
9.	वी. उदयनाथन	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी	31.10.2005

1	2	3	4
10.	डी. मनोमोहनन नायर	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ	31.10.2005
11.	ए. एस. सिवरामचंद्रन	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ	31.12.2005
12.	वै. शेम साम्युयल दास	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	31.03.2005
13.	सी. वेलप्पन पिल्लै	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी	31.10.2005
14.	वासुदेवन नायर के.	प्रधान, कार्मिक व सामान्य प्रशासन	31.03.2005
15.	जयरामन नायर एस.बी.	प्रधान, क्रय व भंडार	31.01.2006
16.	एन. प्रकाश राव	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	30.04.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 2/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में श्रीमती वंदना शेखर, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 31.08.2007 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 2/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	डॉ. एस. वेंकटरामन	वैज्ञानिक अभियंता-एसजी	1.7.2006
2.	डी. मल्लिकार्जुन राव	वैज्ञानिक अभियंता-एसई	1.7.2006
3.	मनोज कुमार पांडे	वैज्ञानिक अभियंता-एसई	1.7.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तापुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर एससी का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	अमित त्यागी	21.03.2005
2.	सौरभ जैन	30.05.2005
3.	अमित कुमार	24.06.2005
4.	संतनु डे	08.07.2005
5.	एन. सेल्वमणि	15.07.2005
6.	सी. वल्लियम्मायी	28.10.2005
7.	मोहित	23.12.2005

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के, उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	डॉ. आर. कृष्णन	अति विशिष्ट वैज्ञानिक	10.02.2006
2.	वी. सुंदर	वैज्ञानिक अभियंता-एसई	01.01.2006
3.	सौरभ गांगवार	वैज्ञानिक अभियंता-एसडी	01.01.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 2/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	आर. रजिखा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	19.05.2006
2.	लोकेश गर्ग	वैज्ञानिक अभियंता-एसडी	29.05.2006
3.	राकेश कौर	वैज्ञानिक अभियंता-एसडी	07.02.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियमला में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	जी. नारायणन	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी
2.	राजन पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
3.	मधु कुमार टी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
4.	हरिकुमार टी. आर.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
5.	प्रसाद एस.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
6.	शाजी बी. पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
7.	जेवियर एम.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
8.	सुधाकरन जी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
9.	तिमोती फ्रांसिस सी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
10.	सुरेश मैथ्यू थामस	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ
11.	मनोहरन एन.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई
12.	मुत्तुकुमार पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई
13.	बैजु ए. पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई
14.	वेणुकुट्टन सी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई
15.	परमसिवम पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई
16.	विजयन पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
17.	मोहनचंद्रन नायर के. सी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
18.	अब्राहम एन. जे.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
19.	रेजी वर्गास	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
20.	पुकाले विजय पवन	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
21.	सिरियाक जे.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
22.	गणेश एस.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
23.	सिवकुमार बी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
24.	मुरुग दास के.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
25.	जेयकुमार पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
26.	जॉन सैम्युयल संपत पाल	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
27.	चंदिरन गाँधीजी ई.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी
28.	इंदुचूडन के.	वैज्ञानिक/अभियंता-एससी
29.	राजू सी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एससी

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(2)/2007-I--अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर ने, स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने पर परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	एस. पिच्चय्या	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	17.11.2005
2.	ए. चंद्रशेखरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	01.03.2006
3.	एम. गणि	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसई	12.05.2006
4.	अभिषेक गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी	19.04.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 7/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियमला में निम्नलिखित अधिकारियों के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	मोहम्मद मुस्लिम	अति विशिष्ट वैज्ञानिक	01.07.2006
2.	अनादि कांत रे	वैज्ञानिक/अभियंता-एच	01.07.2006
3.	जैकाब पणिकर	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी	01.07.2006
4.	डॉ. बालचंद्रन पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी	01.07.2006
5.	डॉ. नारायणन बी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी	01.07.2006
6.	नागेस्वरन जी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी	01.07.2006
7.	रवि बी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ	01.07.2006
8.	राजशेखरन आर.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ	01.07.2006
9.	मैथ्यू जार्ज	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ	01.07.2006
10.	रमेश जी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ	01.07.2006
11.	अजीज एम.पी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ	01.07.2006
12.	रेगि कुमार जी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसएफ	01.07.2006
13.	हरिकुमार बी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	01.07.2006
14.	गोपकुमार एन.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	01.07.2006
15.	रायकुट्टन के. के.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	01.07.2006
16.	बाबू एम.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	01.07.2006
17.	उमर एच. एम.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	01.07.2006

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
18.	अमृत एम.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	01.07.2006
19.	रेखा के. आर.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	01.07.2006
20.	मुरुगन एस.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसई	01.07.2006
21.	गोकुलदास के.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी	01.07.2006
22.	सूर्यमणि त्रिपाठी	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी	01.07.2006
23.	दीपेश कुमार अग्रवाल	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी	01.07.2006
24.	देवेश कुमार भोझा	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी	01.07.2006
25.	अवि आईजैक	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी	01.07.2006
26.	महेश प्रभाकर योले	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी	01.07.2006
27.	चंद्रसेखरन नायर एस.	वैज्ञानिक/अभियंता-एसडी	01.07.2006
28.	हरीज पी. बी.	वैज्ञानिक/अभियंता-एससी	01.07.2006
29.	जोसेफ पी. ए.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	10.04.2006
30.	रामचंद्रन पिल्लै सी. जी.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02.06.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

दिनांक 29 जून 2007

सं. 10/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग, सैक, अहमदाबाद में श्री नागेश्वर राव को वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस.सी.' के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 23.08.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 10/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग, सैक, अहमदाबाद/वीएसएससी, तिरुवनन्तपुरम/श्रीहरिकोट में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में उनके सामने दिये गये दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई है	केन्द्र	कार्यभार करने की तिथि
1	2	3	4	5
	श्री/श्रीमती/कु.			
1.	मैथ्यू वर्गास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वीएसएससी, तिरुवनन्तपुरम	01.01.2006
2.	संजीव कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	सैक, अहमदाबाद	01.01.2006
3.	एस. आर. मकवाना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	सैक, अहमदाबाद	01.01.2006
4.	एस. राघवेन्द्र राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	श्रीहरिकोट,	01.07.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 10/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग, सैक, अहमदाबाद में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में पदोन्नति पर प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई है	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	देवेन्द्र दत्त बलोनी	लेखा अधिकारी	27.01.2006
2.	कमला राजेश	प्रशासन अधिकारी	01.01.2006

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. 10/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग, एसडीएससी, शार में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई है
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	के. गुरुचन्द्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
2.	एस. के. सिंघल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
		के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. ए. 43014/03/2007-प्रशा.-II--वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 16 मई 2007 के आदेश सं. टी-2/2007 के तहत एफ. सं. 11016/4/2007 आईईएस के अनुसरण में, श्री एन. बेलायुधन ने वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के परियोजना मूल्यांकन कार्यालय में 1 जून 2007 की पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2007

सं. ए. 43014/03/2007-प्रशा.-II--वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 16 मई 2007 के आदेश सं. टी-2/2007 के तहत एफ. सं. 11016/4/2007 आईईएस के अनुसरण में, श्रीमती दिव्या परमार ने अनुसंधान अधिकारी के रूप में 8,000-275-13,500/- रुपये

के वेतनमान में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद में 1 जून 2007 की पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 जुलाई 2007

सं. ए-32014/2/2006-प्रशासन-III--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006-सीएस-II, दिनांक 31.05.2006, 20.07.2006, 03.11.2006, 22.12.2006 एवं 29.06.2007 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सीएसएसएस कैडर के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित आशुलिपिकों की योजना आयोग में ग्रेड 'ए' एवं 'बी' (आमेलित) आशुलिपिक के रूप में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31.12.2007 तक बढ़ाते हैं :-

1. श्री पी. शंकर
2. श्रीमती कमला पठनिया
3. श्री सी. एम. सिंह
4. श्री एच. एस. गुजराल
5. श्रीमती शांति सुधा अरोड़ा
6. श्रीमती कुलविंदर कौर
7. श्री रतन कुमार
8. श्री जे. एल. किशनानी
9. श्री तिलक राज अरोड़ा
10. श्री बी. के. शर्मा
11. श्रीमती एस. पुरुषोत्तमन
12. श्रीमती हरविंदर फुलवारिया
13. श्री ओमप्रकाश

2. यह नियुक्ति कर्मचारी को लगातार इसी ग्रेड में रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयनित सूची में समावेश होने या सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' एवं 'बी' (आमेलित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। तदर्थ नियुक्ति बिना किसी कारण के, किसी भी समय पर समाप्त की जा सकती है।

प्रेम प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. ए-11013/02/2007-प्रशासन II--राष्ट्रपति, योजना आयोग के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री एस. एस. शर्मा को सदस्य (श्री बी. के. चतुर्वेदी) के निजी स्टाफ में पदों के सृजन होने तक, सदस्य (श्री बी. के. चतुर्वेदी) की निजी स्टाफ में निजी सचिव के रूप में, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, सह सत्रबसानी प्रतिनियुक्ति आधार पर सदस्य योजना आयोग की इच्छा या उनके द्वारा कार्यभार त्यागने तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 14.06.2007 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

प्रेम प्रकाश, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. 181/3/2007 (युप-ख)--सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित सहायकों को, जो स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, 11.07.2007 से प्रभावी और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री बी. सी. पात्रा
2. श्री ए. के. पाठक
3. श्री एस. के. दास
4. श्री जयदेव लाहिड़ी

2. आगे उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इस समय लम्बित सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8225-43/2003 श्री तपन दत्ता तथा अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग के अन्तिम निर्णय के अधीन हैं।

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जुलाई 2007

सं. 181/2/2006/3534--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को 18 जून, 2007 से आगामी आदेशों तक के लिए भारत निर्वाचन आयोग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री नरेन्द्र ना. बुटेलिया
2. श्री आशीष चक्रवर्ती
3. श्री सुमित मुखर्जी
4. श्री बीरबल शर्मा

अ. कु. मजुमदार, प्रधान सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. 20/जी/2884-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री रंजीत ईस्सर, भा.प्र.से. (हरियाणा : 72) को गृह मंत्रालय में सचिव, राजभाषा विभाग के रूप में दिनांक 29 जून, 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 जुलाई 2007

सं. 14016/17/2006-यूटीएस-II--संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003, के नियम 10 के उप-नियम (1) के

साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

क्रम	अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म की तारीख सं.
सर्वश्री			
1.	मदन मोहन	डी-I/631	04.04.1950
2.	महाबीर सिंह	डी-I/632	10.11.1949
3.	अमरजीत सिंह	डी-I/633	04.03.1949
4.	सुभाष चन्द्र	डी-I/53	13.04.1950

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 जुलाई 2007

सं. 14046/40/2007-यूटीएस-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (1998 बैच) के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के सदस्य श्री एन. एल. चकमा का 20 मई, 2007 को निधन हो गया है।

वी. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2007

सं. पीएफ/जी/185-प्रशा. V--श्री एस. फारूख हमीद, उप महानिदेशक (प्रापण) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जुलाई, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

दिनांक 25 जुलाई 2007

सं. पीएफ/जी/77-प्रशा. V--श्री आर. बी. गुप्ता, सहायक निदेशक (प्रापण), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, 31 जुलाई, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. ए-32013/2/2007-प्रशासन-I(जी)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की स्थायी अनुभाग अधिकारी श्रीमती मनीषा भटनागर को दिनांक 5 जुलाई, 2007 के

पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति, उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु प्रवर सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। अतः तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2007

सं. ए-32013/1/2007-प्रशासन-I(जी)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप-सचिव) में तदर्थ आधार पर श्री वी. पेद्दना, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की पदोन्नति होने पर उन्हें दिनांक 11 जून, 2007 के पूर्वाह्न से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2007

सं. 39019/02/2007-स्थापना (ख)--राष्ट्रपति, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्राचार्य और अध्यक्ष, सेन्टर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को, दिनांक 02.07.2007 (अपराह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील के. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 39019/03/2007-स्थापना (ख)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री सुबीर दत्ता को दिनांक 30.06.2007 (अपराह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील के. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 39019/02/2007-स्थापना (ख)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री गुरबचन जगत ने दिनांक 30.06.2007 (अपराह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद त्याग दिया है।

सुनील के. अरोड़ा, अवर सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. ए-19012/2/2005-पीए--प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में इस समय अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री कुन्दन भारती को अब के बाद श्री कुन्दन भारती सिन्हा के नाम से जाना जाएगा।

वी. के. भाटिया, अवर सचिव

सं. ए-19012/3/2005-पीए--प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में इस समय अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा



के अधिकारी श्री राजीव कुमार को अब के बाद श्री राजीव शर्मा के नाम से जाना जाएगा।

वी. के. भाटिया, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2007

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 42/2007. फा. सं. ए-22011/02/2007-प्रशा. II--सी सी एस (सी सी ए) नियमावली, 1965 के नियम 12 के तहत भारत सरकार के निर्णय संख्या 2 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील), चेन्नई को दिनांक 27.06.2007 से अगले आदेशों तक सीमा शुल्क आयुक्त (अपील), चेन्नई पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2007

सं. 43/2007. फा. सं. ए-22011/01/2007-प्रशा. II--सी सी एस (सी सी ए) नियमावली, 1965 के नियम 12 के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्णय संख्या 2 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को मुख्य सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के ग्रेड में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रभार सौंपने हेतु एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है :-

क्रम सं.	पद का नाम	अधिकारी जिन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है	अवधि
1.	मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर जोन और भोपाल जोन.	श्री राकेश शर्मा, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, पुणे.	29.06.2007 से अगले आदेशों तक
2.	मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई-I.	श्री एन. शशीधरण, मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुम्बई-II.	01.07.2007 से अगले आदेशों तक

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2007

सं. ए.12011/15/03-प्रशा. 1ए(पार्ट)--इस विभाग की दिनांक 8 फरवरी, 2006 के अधिसूचना सं. ए-12011/15/03-प्रशा. 1 के

अनुक्रम में, राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में उप निदेशक (बजट तथा लेखा) के पद पर श्री वी. प्रकाश की तदर्थ प्रतिनियुक्त की अवधि 10.07.2007 से 27.11.2007 अथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग स्था.(डी) के दिनांक 29 जून, 2007 के यू.ओ. सं.-सी-177/यूपएस(स्था. डी)/07 के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग स्था.(डी) के सहमति से जारी किया जाता है।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. ए-19012/11/2002-प्रशा.-1ए--एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद का कार्यभार दिनांक 13 जुलाई, 2007 (अपराह्न) से त्याग दिया है।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2007

सं. ए. 19012/19/2007-प्रशा.-1 ए--राष्ट्रपति, डा. अरविन्द विरमानी को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 26,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर तदर्थ आधार पर 16 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से 30 जून, 2009 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

एस. के. वर्मा, निदेशक

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2007

सं. ए-15012/2/2006-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, ऋण वसूली अधिकरण-I, अहमदाबाद के पीठासीन अधिकारी श्री एस. टी. महाडिक को तत्काल प्रभाव से, अगला आदेश होने तक तथा बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, अपने कार्यभार के साथ-साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, पुणे के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-15012/2/2006-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, ऋण

वसूली अधिकरण-I, मुम्बई के पीठासीन अधिकारी श्री किरणलाल पन्नालाल कोटेचा को तत्काल प्रभाव से, अगला आदेश होने तक तथा बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, अपने कार्यभार के साथ-साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, पुणे के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-15012/2/2006-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर के पीठासीन अधिकारी श्री प्रेम मोहन मिश्रा को तत्काल प्रभाव से, अगला आदेश होने तक तथा बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, अपने कार्यभार के साथ-साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. 44/1/2000-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अधिकरण-I, कोलकाता के पीठासीन अधिकारी डॉ. एस. डी. सिंह को तत्काल प्रभाव से, अगला आदेश होने तक तथा बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, अपने कार्यभार के साथ-साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, कोलकाता के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. ए. 9/3/2005-स्थापना--वर्ष 2000 के लिए उप सचिवों की चयन सूची में उन्हें सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जून 2007 के का. ज्ञा. सं. 4/2/2006+सीएस. I (डी) के निबन्धनों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (चयन सूची 1991) के एक नियमित अवर सचिव श्री एस. के. नाग को पदोन्नति पर विनिवेश विभाग में दिनांक 01 जुलाई, 2000 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 जून 2007

सं. पीएफजी (934)/07-प्रशा. I--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक

28.03.2007 के आदेश सं. 11016/3/2007-आईईएस के तहत श्री भरत लाल मीणा, आईईएस को भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के वरिष्ठ समयमान में प्रोन्नत किए जाने पर उन्होंने दिनांक 7 जून, 2007 के पूर्वाह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में उप निदेशक (अनुसंधान) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

आर. सी. टली, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 2007

सं. ए-22012/1/2006-स्था.-II--सुश्री विनीता बरवा, आई.सी.ए. एस. (1987) के मुख्य लेखा नियंत्रक के नाते नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली में दिनांक 02.07.2007 (पूर्वाह्न) को अपना कार्यभार संभाल लिया है।

एम. के. आनन्द, निदेशक

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2007

सं. ए-32019/1/2001-स्था.-I--राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गये पद और अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम और वास्तविक पद	प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि के साथ तदर्थ पद	तदर्थ नियुक्ति का विस्तार से	तक
1	2	3	4	5
	सर्व/श्री			
1.	सुशील कुमार विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	औद्योगिक सलाहकार (अभियांत्रिकी) 30.11.2000	1.7.2007	31.07.2007 (सेवा निवृत्ति की तारीख)
2.	एस.पी. तनेजा विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	औद्योगिक सलाहकार (अभियांत्रिकी) 01.04.2005	1.7.2007	31.08.2007 (सेवा निवृत्ति की तारीख)
3.	ए.के. सांघी विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	औद्योगिक सलाहकार (अभियांत्रिकी) 01.12.2005	1.7.2007	31.12.2007
4.	एन.एच. मलकमपाटे विकास अधिकारी (रसायन)	औद्योगिक सलाहकार (रसायन) 01.01.2005	1.7.2007	31.07.2007 (सेवा निवृत्ति की तारीख)
5.	एस. के. जैन-II विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	सहायक औद्योगिक सलाहकार (अभियांत्रिकी) 01.05.2005	1.7.2007	31.12.2007

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6.	वी.सी. अग्रवाल विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	सहायक औद्योगिक सलाहकार (अभियांत्रिकी) 01.12.2005	1.7.2007	31.12.2007	18.	मोहम्मद जकारिया खां यूसुफजय सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 20.06.2001	1.7.2007	31.12.2007
7.	डी.सी. सूरि विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 25.07.2003	1.7.2007	31.12.2007	19.	ए.पी. सिंह सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 04.07.2002	1.7.2007	31.12.2007
8.	सुशील लाकड़ा विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.10.2003	1.7.2007	31.12.2007	20.	ए.एम. बलराज सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 04.07.2002	1.7.2007	31.12.2007
9.	बी.के. मिश्रा विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 12.08.2004	1.7.2007	31.12.2007	21.	एस.के. जैन-III सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.10.2003	1.7.2007	31.12.2007
10.	के.के. सिन्हा विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.09.2004	1.7.2007	31.12.2007	22.	बी.सी. नायक सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.09.2004	1.7.2007	31.12.2007
11.	संजय चावड़े सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.03.2005	1.7.2007	31.12.2007	23.	आर.के. जयसवाल सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 12.08.2004	1.7.2007	31.12.2007
12.	के.के. तिवारी विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 08.07.2005	1.7.2007	31.12.2007	24.	संदीप चौहान सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.03.2005	1.7.2007	31.12.2007
13.	गजराज सिंह सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.08.2005	1.7.2007	31.12.2007	25.	एस.एस. गुप्ता सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.07.2005	1.7.2007	31.12.2007
14.	आर.के. त्रिपाठी सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 01.12.2005	1.7.2007	17.07.2007 (स्वैच्छक सेवा निवृत्ति की तारीख)	26.	एस.एस. बोस सहायक विकास अधिकारी (रसायन)	विकास अधिकारी (रसायन) 01.09.1997	1.7.2007	31.12.2007
15.	शैश कुमार विकास अधिकारी (रसायन)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (रसायन) 04.02.2000	1.7.2007	31.12.2007	27.	डॉ. के.आर. मूर्ति सहायक विकास अधिकारी (रसायन)	विकास अधिकारी (रसायन) 01.01.2005	1.7.2007	31.12.2007
16.	एन.सी. तिवारी विकास अधिकारी (रसायन)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (रसायन) 01.01.2005	1.7.2007	31.12.2007	<p>2. उपर्युक्त नियुक्तियों के आदेश पूर्णतया तदर्थ आधार पर दिये गये हैं और अधिकारियों को लगातार पद पर बने रहने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता के लिए अथवा उच्च ग्रेड में पदोन्नति आदि के लिए वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों को बिना कोई कारण बताये अथवा सूचना आदि दिये तदर्थ आधार पर नियुक्तियों को समाप्त करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।</p> <p>ज. ज. कौर, अवर सचिव</p>				
17.	एन.एल. गोस्वामी सहायक विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (अभियांत्रिकी) 20.06.2001	1.7.2007	31.12.2007					

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. ए-19011/200/2007-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री बी. एस. मीणा,  
भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : 75) को 05.07.2007 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश  
जारी किए जाने तक, 22,400-525-24,500/- रुपए के वेतनमान में

लोक उद्यम विभाग में सचिव सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर. पी.एस.ई.) नियुक्त करते हैं।

कपिल देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. ए-19011/197/2006-प्रशासन--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सचिवालय की दिनांक 04.07.2007 की सूचना संख्या 22.8.2007-स्था. अधिकारी (एस.एम.) द्वारा अपर सचिव, भूपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के रूप में नियुक्ति हेतु उनके स्थानांतरण होने के, परिणामस्वरूप श्रीमती नीलम नाथ, भा. प्र. से. (झारखण्ड : 75) सचिव, सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर. पी.एस.ई.) लोक उद्यम विभाग ने 09.07.2007 (पूर्वाह्न) से पदभार छोड़ दिया है।

डी. द्वारकानाथ, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 23 जुलाई 2007

सं. ए-19011/16/2007-प्रशा.-राष्ट्रपति, श्री एस. के. मोहनती को 20.07.2007 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (के.स.स. ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त करते हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2007 के आदेश सं. 5/6/2006-सी.एस.-I (डेस्क) की शर्तों के अनुसार, यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों की अधधीन होगी :--

- (i) उक्त तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में धरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।
- (ii) उक्त तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

उत्तम प्रकाश, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2007

सं. ए-12011/11/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री मनीष प्रसाद को 3 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2002-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.7.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/61/2005-

सीएस-I के अनुसरण में इस विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की उपभोक्ता मामले विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति को समय-समय पर यथासूचित तदर्थ पदोन्नति की शर्तों और निबंधनों के अधधीन 31.12.2007 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भर लिए जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

क्रम सं.	सी एस एल संख्या	नाम	किस तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं
1.	865/89	श्री डी. सी. देवगुण	25.03.2004
2.	871/89	श्री बी. के. सहगल	25.03.2004
3.	872/89	श्री ओमबीर सिंह	06.04.2004
4.	878/89	श्री अमरजीत सिंह	01.04.2004
5.	942/89	श्री गोपाल सिंह	25.03.2004
6.	383/91	श्रीमती शैलेश कुमारी	12.10.2006

केवल कृष्ण, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. ए-19013/03/2003-प्रशा.-I(ए)--इस विभाग की दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वैज्ञानिक "एफ", ग्रेड-IV(5), डा. वीरेन्द्र शंकर की 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में भारतीय दूतावास, टोक्यो, जापान में वैज्ञानिक अताशे के रूप में 29.09.2007 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-19013/02/2003-प्रशा.-I(ए)--इस विभाग की दिनांक 1 सितम्बर, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी अनुप्रयोग प्रयोगशाला, रक्षा मंत्रालय (अनुसंधान एवं विकास संगठन), देहरादून के वैज्ञानिक "ई", श्री प्रमोद शुक्ला की 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में भारतीय दूतावास, मास्को, में वैज्ञानिक अताशे के रूप में 01.09.2007 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-19013/01/2003-प्रशा.-I(ए)--इस विभाग की दिनांक 10 जुलाई, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "एफ", डा. के. के. द्विवेदी की 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में भारतीय दूतावास, वाशिंगटन, यू.एस.ए., में वैज्ञानिक अताशे के रूप में 26.08.2007 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 जुलाई 2007

सं. ए-19014/5/89-प्रशा.-I(ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त, 1999 के का.ज्ञा. सं. 35034/1/97-स्था. (डी) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कनिष्ठ प्रलेखन अधिकारी, श्री एन. पी. रावले को सुनिश्चित कैरियर संवर्धन योजना के अंतर्गत 05.01.2007 से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में सहर्ष द्वितीय वित्तीय स्तरान्वयन प्रदान करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2007

सं. ए-19014/03/2007-प्रशा.-I(ए)--इस विभाग की दिनांक 4 जुलाई, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, डा. अरिन्दम भट्टाचार्य को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अस्थाई आधार पर वैज्ञानिक "सी" के रूप में 02.07.2007 (पूर्वाह) से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. ए-12021/2/2006-सी पी डब्ल्यू--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री जे. एम. माऊलकर, भा.प्र.से. (असम : 77) का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद के कार्य का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 6.3.2007 से और अगले छः माह की अवधि तक के लिए जारी रखने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

एस. के. अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. ए.32012/5/2005-पी-I(.)--राष्ट्रपति, संशोधित सुनम्य पूरक योजना (एफ सी एस) के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को अगले आदेश होने तक 2.07.2007 (पूर्वाह) से उनके नाम के विपरीत दर्शाए गए पदों पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम, पदनाम और वेतन	के रूप में पदोन्नति
1.	डा. सुजाता खापर्डे, वैज्ञानिक 'डी' 12,000-375-16,500/-	वैज्ञानिक 'ई' वेतनमान 14,300-400-18,300/-
2.	डा. ताशी वांगडी, वैज्ञानिक 'डी' 12,000-375-16,500/-	वैज्ञानिक 'ई' वेतनमान 14,300-400-18,300/-
3.	डा. पी. एस. रावत, वैज्ञानिक 'बी' 8,000-275-13,500/-	वैज्ञानिक 'ग' वेतनमान 10,000-325-15,200/-
4.	श्री ओम प्रकाश, वैज्ञानिक 'बी' 8,000-275-13,500/-	वैज्ञानिक 'ग' वेतनमान 10,000-325-15,200/-

मोहन लाल वाधवानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2007

सं. ए-32013/01/2007-स्था.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/2/2006-सी.एस.-I, दिनांक 27 जून, 2007 के तहत सी एस एस (उप सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए वर्ष 1999 और 2000 की चयन सूची में नाम शामिल हो जाने के परिणाम स्वरूप, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सी एस एस के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों को एतद्वारा उनके नामों के आगे दर्शायी गई तालिकाओं से सी एस एस के चयन ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है :-

01. श्री जे. के. त्रिखा	01.07.1999 (1999 के लिए)
02. श्री एस. के. सेठी	01.07.1999 (1999 के लिए)
03. श्री करनैल सिंह	01.07.1999 (1999 के लिए)
04. डा. अनिल कुमार	01.07.2000 (2000 के लिए)
05. श्री हरि राम जोशी	01.07.2000 (2000 के लिए)

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

सं. ए-12023/3/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री बी. संतोष कुमार, भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड सी ई : 92) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में निदेशक के स्तर पर 11 जुलाई 2007 के पूर्वाह से पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्यमंत्री (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) के निजी सचिव के रूप में उनके कार्य करने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. 3-5/2003-मा. (प्रशासन)--राष्ट्रपति, श्री एम. नीलाकण्डन को केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन तथा इंजीनियरी संस्थान में

8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 28.5.2007 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ अनुदेशक (मात्स्यिकी बायोलाजी) (समूह “क” राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

#### ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2007

सं. ए-12022/5/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार मिश्रा, आईआरटीएस (90) को ग्रामीण विकास मंत्रालय में दिनांक 8 जून, 2007 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. ए-19014/6/2001-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप सचिव श्री एस. के. बत्रा दिनांक 30.6.2007 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। तदनुसार, श्री बत्रा ने 30.6.2007 (अपराह्न) से उप सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2007

सं. ए-12022/4/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री टी. श्रीनिवास, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को दिनांक 2 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

#### महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जुलाई 2007

सं. 4-8/2007-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री नचिकेता कपूर, निवासी मकान नं. 10-बी, गंगाराम हस्पताल मार्ग, नई दिल्ली को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव के पद के कार्यभार से 18.07.2007 (पूर्वाह्न) से मुक्त करते हैं।

एस. पी. मुंजाल, अपर सचिव

#### संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. ए-19011/2/2005-स्थापना--वर्ष 2000 की चयन सूची में डॉ. परविंदर कौर के नाम को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सी एस एस की नियमित ग्रेड-I अधिकारी, डॉ. परविंदर कौर

को दिनांक 1 जुलाई, 2000 से नियमित आधार पर सी एस एस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2007

सं. ए-19011/2/2001-स्थापना--वर्ष 1999 की चयन सूची में श्री सुदेश कुमार के नाम को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के नियमित ग्रेड-I अधिकारी को दिनांक 1 जुलाई, 1999 से नियमित आधार पर सी एस एस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

#### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. 3-7/2004-एन.आई-II/डी.डी.-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में सुश्री पूर्णिमा सिंह, आई.आर.एस. (आई. टी. 78), संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को श्री जी. एन. पेगू, संयुक्त सचिव जो दिनांक 31.12.2006 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए के स्थान पर राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में, दिनांक 25 जून, 2007 से 3 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, नियुक्त करते हैं।

के. एन. मिश्रा, अवर सचिव

#### राष्ट्रीय विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जनजाति आयोग

नई दिल्ली-110066, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. डी.एन.टी.सी./1/2006-प्रशासन--भारत के राष्ट्रपति, दिल्ली विश्व विद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की रीडर डा. मीना राधाकृष्ण की राष्ट्रीय विमुक्त घूमन्तु एवं अर्द्ध-घूमन्तु जनजाति आयोग, नई दिल्ली में निदेशक (अनुसंधान) ग्रुप-‘ए’, राजपत्रित के पद पर दिनांक 01.07.2007 से 31.01.2008 तक की नियुक्ति के लिए अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, रु. 12,000-375-16,500/- के निर्धारित वेतनमान में, सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लक्ष्मी चन्द, सदस्य सचिव

सं. डी.एन.टी.सी./1/2006-प्रशासन--भारत के राष्ट्रपति, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता के मानवविज्ञान (सांस्कृतिक) डा. सी. आर. सत्यनारायणन् को राष्ट्रीय विमुक्त घूमन्तु एवं अर्द्ध-घूमन्तु जनजाति आयोग, नई दिल्ली में उप-निदेशक (अनुसंधान) ग्रुप-‘ए’, राजपत्रित के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 25.06.2007

से 05.08.2008 तक अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, रु. 10,000-325-15,200/- के निर्धारित वेतनमान में, सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लक्ष्मी चन्द, सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2007

सं. 15-29/2007-स्था.--राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार, भा.प्र.से. (उ.प्र. 73) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भारत सरकार के सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री अनिल कुमार ने दिनांक 16 जुलाई, 2007 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का कार्यभार सम्भाल लिया है।

पी. एम. एस. नारायणन, अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. 10/1/एनसीएसटी/07-प्रशा.--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48क के अनुसरण में, [अखिल भारतीय सेवाएं (सेवा की शर्तें-अवशिष्ट मामले) नियम 1960 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू होने के कारण], राष्ट्रपति, श्री के. के. गुप्ता, भारतीय जन सेवा (एचपी : 71) सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए उनके 3 जुलाई 2007 के अनुरोध को स्वीकार करने और इन नियमों के उप नियम (3क)(क) एवं (ख) के उपबंधों के अनुसार 3 माह की सामान्य नोटिस की अवधि में छूट देते हुए, उन्हें दिनांक 31 जुलाई 2007 पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

के. एन. सिंह, संयुक्त सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 मई 2007

सं. ए-32013/12/2001-प्रशा.-II/प्रशा.-I--इस कार्यालय के दिनांक 24.05.2007 के आदेश सं. फा. सं. ए-32013/12/2001-प्रशा.-II/प्रशा.-I और सीएस.-I (डी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.4.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 8/2/2006-सीएस.-I (डी), के अनुसरण में दूरसंचार विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव, श्री मोहिन्दर सिंह को एतद्वारा 30 अप्रैल, 2007 के पूर्वाह्न से दूरसंचार विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. उप सचिव के पद के उन्नयन द्वारा निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति व्यक्तिगत रूप में की गई है।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव

सं. 36-1/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री आर. के. चंदोलिया, आईईएस (1984) को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए. राजा के निजी सचिव के रूप में निदेशक के स्तर पर 16 मई, 2007 के पूर्वाह्न से, उनके पांच वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 08.2.2010 तक अथवा उनके द्वारा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2007

सं. ई(ओ)III-2007/आर एन/19--दक्षिण मध्य रेलवे के यातायात (परिवहन) और वाणिज्यिक विभाग के ग्रुप 'ख' अधिकारी श्री आर. बी. एस. राघव राव ने कोंकण में स्थायी समाहन के परिणामस्वरूप 09.04.07 से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव

रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2007

सं. ए-32014/2/2004-ई-II(बी)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.03.2007 और 29.06.2007 के का. ज्ञा. सं. 5/8/2006-सीएस-II के अनुसार, राष्ट्रपति, योजना आयोग की सीएसएसएस संवर्ग की श्रीमती रीमा मल्होत्रा, आशुलिपिक ग्रेड-सी को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में 6,500-200-10,500 रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर दिनांक 02.07.2007 (पूर्वाह्न) से 31.12.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

बी. एन. मिश्र, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. 6/392/06-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) संवर्ग के एक नियमित अनुभाग अधिकारी श्री भानु सुरेन्द्र को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री भानु सुरेन्द्र की तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें अनिश्चित रूप से इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

## विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2007

सं. 14/2007 (फा. सं. 2/6/2005-प्रशा.-II)--दिनांक 27 जून, 2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2006-सीएसआई (डी) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, श्री ओ. एस. नरूला, श्री के. के. चुग और श्रीमती निर्मला राव, जो कि वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को चयन सूची वर्ष 1999 के अनुरूप सीएसएस (उप सचिव) के सिलेक्शन ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. तदनुसार, उन्हें अनुमोदित सेवा के उद्देश्य हेतु तथा नोशनल आधार पर उप सचिवों के वेतन को निर्धारित करने के लिए नियमित आधार पर 1 जुलाई, 1999 के प्रभाव से सीएसएस के चयन ग्रेड पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। वे, तदर्थ आधार पर उप सचिवों के रूप में अपनी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से वेतन के नोशनल पुनःनिर्धारण के कारण उच्च वेतन के वास्तविक लाभ के हकदार होंगे।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 16 जुलाई 2007

सं. 14/2007 (फा. सं. 2/6/2005-प्रशा.-II)--दिनांक 27 जून, 2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2006-सीएसआई (डी) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, श्री ओ. एस. नरूला, श्री के. के. चुग और श्रीमती निर्मला राव, जो कि वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को चयन सूची वर्ष 1999 के अनुरूप सीएसएस (उप सचिव) के सिलेक्शन ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. तदनुसार, उन्हें अनुमोदित सेवा के उद्देश्य हेतु तथा नोशनल आधार पर उप सचिवों के वेतन को निर्धारित करने के लिए नियमित आधार पर 1 जुलाई, 1999 के प्रभाव से सीएसएस के चयन ग्रेड पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। वे, तदर्थ आधार पर उप सचिवों के रूप में अपनी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से वेतन के नोशनल पुनःनिर्धारण के कारण उच्च वेतन के वास्तविक लाभ के हकदार होंगे।

3. इसे मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/2007, फा. सं. 2/6/05-प्रशा.-II दिनांक 11.7.2007 के प्रतिस्थापन में जारी किया जाता है।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2007

सं. 26/2007-मि.सं.ए-38012/1/007-प्रशा. एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी, भारत सरकार की सेवा से 30 जून, 2007 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1.	श्री पी. एस. मथारू	निदेशक
2.	श्री आदित्य कुमार	निदेशक
3.	श्री जी. एस. दास	उप निदेशक
4.	श्री एन. सी. गोयल	मुख्य अभियंता
5.	श्री अभय कुमार जैन	निदेशक
6.	श्री एम. एस. माथुर	सहायक निदेशक ग्रेड-एक

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. 15/2007 (फाइल सं. 22/534/2004-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्रीमती मीता सिंह, आईआरएस (93), उप सचिव (समन्वय), जल संसाधन मंत्रालय को दिनांक 01.07.2007 के पूर्वाह्न से 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में इस मंत्रालय में, व्यक्तिगत तौर पर उनके यहां रहने तक, जल संसाधन मंत्रालय में निदेशक (समन्वय) के रूप में नियुक्त करते हैं। इस मंत्रालय में उनका शेष सेवाकाल 01.12.2009 तक, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव



## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 16th July 2007

No. RS/3(ix)/2007/67-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri R. K. Trikha, Senior Printing Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Printing Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis in that Secretariat, with immediate effect, until further orders.

Smt. AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS/3(ix)/2007/66-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Printing Officers in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director (P&P) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis in that Secretariat, with immediate effect, until further orders :—

1. Shri Vijay Singh
2. Shri Mukesh Kumar

Smt. AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

No. RS/3(ix)/2007/65-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri S. P. S. Saini, Printing Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (P&P) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis in that Secretariat, with immediate effect, until further orders.

Smt. AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

The 20th July 2007

No. RS/3(ix)/2007/81-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Maneesh Kumar, Senior Security Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Security Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis in that Secretariat, with immediate effect, until further orders.

Smt. AGNES MOMIN GEORGE, Dir.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 16th July 2007

No. F-15/28/2004/GN-5926/AN-I.—The services of Shri Ashok Wankhade, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairperson, Committee on Social Justice and Empowerment (Smt. Sumitra Mahajan) are terminated with effect from the afternoon of 30th June, 2007.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

No. F-15/28/2004/GN-5927/AN-I.—Shri Amol Achut Rao Pathak is appointed as Senior Private Secretary in the scale

of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on the personal staff of Chairperson, Committee on Social Justice and Empowerment (Smt. Sumitra Mahajan) with effect from 1st July, 2007 until further orders.

2. The appointment of Shri Amol Achut Rao Pathak to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairperson, Committee on Social Justice and Empowerment.

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairperson, Committee on Social Justice and Empowerment.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 20th July 2007

No. A-19013/03/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint Ms. Mala Dutt, IES (86) as Director in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 19th July, 2007 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 17th July 2007

No. 3(2)/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri O. P. Dhawan, Section Officer as Under Secretary in the purely temporary capacity and on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 12.07.2007 to 31.10.2007 or until further orders, whichever is earlier.

REWA RANI, Under Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 30th April 2007

No. 7/1(1)2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the under mentioned Officers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion System Centre, Valiamala, of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted	Date of Promotion
1	2	3	4
1.	Shri/Smt./Kum Gopinath Nair M. K.	Outstanding Scientist	10.02.2006
2.	Ramajogi K.	Scientist/Engineer H	01.07.2005
3.	Amarasekaran C.	Scientist/Engineer H	01.07.2005
4.	Ganesan V.	Scientist/Engineer H	01.07.2005
5.	Ramesh S.	Scientist/Engineer G	01.07.2005
6.	Gangadhar D.	Scientist/Engineer SG	01.01.2006

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
7.	Ramesh Kumar M. O.	Scientist/Engineer SG	01.07.2005
8.	Sabapathy T. M.	Scientist/Engineer SF	01.07.2005
9.	Vasudevan R.	Scientist/Engineer SF	01.07.2005
10.	Shambayya K.	Scientist/Engineer SF	01.01.2006
11.	Chitinis Virupaksh Digambar	Scientist/Engineer SE	01.07.2005
12.	Geetha Sen	Scientist/Engineer SE	01.07.2005
13.	Varugheze K. O.	Scientist/Engineer SE	01.07.2005
14.	Mathew, C Varghese	Scientist/Engineer SE	01.07.2005
15.	Bijukumar K. S.	Scientist/Engineer SE	01.07.2005
16.	Muniswamy S.	Scientist/Engineer SE	01.07.2005
17.	Krishna Murthy V.	Scientist/Engineer SE	01.01.2006
18.	Pazhani Velu M.	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
19.	Prakash M. N.	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
20.	Debdulal Das	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
21.	Vinodh Babu V.	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
22.	Aji M Abraham	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
23.	Raji George	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
24.	Renjith G.	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
25.	Abilash P. M.	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
26.	Sivaraman K. V.	Scientist/Engineer SD	01.07.2005
27.	Shajiha M.	Scientist/Engineer SD	01.01.2006
28.	Balakrishna Panicker V.	Scientist/Engineer SC	01.07.2005
29.	Ponnuswamy M.	Scientist/Engineer SC	01.07.2005
30.	Arun S.	Scientist/Engineer SC	01.01.2006
31.	Murugan S.	Scientist/Engineer SC	01.01.2006
32.	Ashok Kumar K. N.	Scientist/Engineer SC	01.01.2006
33.	Prema Kumar M.	Scientist/Engineer SC	01.01.2006
34.	Vikamon V.	Accounts Officer	18.01.2006
35.	Sreenivasulu C. H.	Purchase & Stores Officer	25.01.2006
36.	Basavanna C. S.	Purchase & Stores Officer	15.02.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy

No. 7/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Sri K. Madhusudan, Scientist Engineer-SC in the, Liquid Propulsion System Centre, Bangalore, of the Department of Space with effect from the afternoon of 18.07.2006.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy

The 31st May 2007

No. 7/1(1)/2005-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC

in the Liquid Propulsion System Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each. :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Sreekanth Bammidi	02.06.2005
2.	Sirnaik Mashayakh Bi Nisar Ahmed	06.06.2005
3.	R. Saravanan	10.06.2005
4.	S. Ajith	12.05.2005
5.	R. Tamil Selvan	18.05.2005
6.	Kamran Ahmed	24.05.2005

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Sri Soosaimarian M, Scientist/Engineer-SE in the Liquid Propulsion System Centre, Valiamala, of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 05.04.2006.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(2)/2007-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Liquid Propulsion System Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Gopalaswamy NK	Scientist/Engineer-G	28.02.2006
2.	Mohammed Ali Jinnah	Scientist/Engineer-G	31.03.2006
3.	Ramasubramanian A.	Scientist/Engineer-G	31.03.2006
4.	George Varghese	Scientist/Engineer-G	30.06.2006
5.	Om Prakash Varshney	Scientist/Engineer-G	30.06.2006
6.	Jacob Devdoss A.	Scientist/Engineer-SG	31.05.2006
7.	Rama Rao P. N.	Scientist/Engineer-SE	30.06.2006
8.	Valappan A. G.	Scientist/Engineer-SE	31.05.2006
9.	Thiraviya Prasad K.	Station Officer-I	31.05.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(1)/2007-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Liquid Propulsion System Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram

of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
1.	Shri/Smt./Kum. Gnana Gandhi	Outstanding Scientist	31.01.2006
2.	Dr. K. Ramamurthy	Scientist/Engineer-H	31.07.2005
3.	Lalitha Ramachandran	Scientist/Engineer-G	31.12.2005
4.	N.K. Gopalaswamy	Scientist/Engineer-G	28.02.2006
5.	M. Jayaraman	Scientist/Engineer-G	31.01.2006
6.	P.V. Balakrishnan	Scientist/Engineer-SG	30.04.2005
7.	Indira M. C.	Scientist/Engineer-SG	31.10.2005
8.	Dhandapani S. R.	Scientist/Engineer-SG	31.01.2006
9.	V. Udaiyanathan	Scientist/Engineer-SG	31.10.2005
10.	D. Manomohan Nair	Scientist/Engineer-SF	31.10.2005
11.	A.S. Sivaramachandran	Scientist/Engineer-SF	31.12.2005
12.	Y. Shem Samuel Dhas	Scientist/Engineer-SE	31.03.2005
13.	C. Velappan Pillai	Scientist/Engineer-SD	31.10.2005
14.	Vasudevan Nair K.	Head, Personnel & General Administration	31.03.2005
15.	Jayaraman Nair S. B.	Head, Purchase & Stores	31.01.2006
16.	N. Prakash Rao	Sr. Administrative Officer	30.04.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No.2/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Smt. Vandana Shekher, Scientist Engineer-SD in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad, of the Department of Space with effect from the afternoon of 31.08.2006.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No.2/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad, of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted	Date of Promotion
1.	Shri/Smt./Kum/ Dr. S. Venkataraman	Scientist/Engineer-SG	01.07.2006
2.	D. Mallikarjuna Rao	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
3.	Manoj Kumar Pandey	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(1)/2005-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientist/Engineer-SC in the Liquid Propulsion System Centre, Valiamala of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Shri/Smt./Kum. Amit Tyagi	21.03.2005
2.	Sourabh Jain	30.05.2005
3.	Amit Kumar	24.06.2005
4.	Santanu De	08.07.2005
5.	N. Selvamani	15.07.2005
6.	C. Valliammai	28.10.2005
7.	Mohit	23.12.2005

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad, of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted	Date of Promotion
1.	Shri/Smt./Kum Dr. R. Krishnan	Outstanding Scientist	10.02.2006
2.	P. Sundar	Scientist/Engineer-SE	01.01.2006
3.	Saurabh Gangwar	Scientist/Engineer-SD	01.01.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 2/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientist/Engineers in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
1.	Shri/Smt./Kum R. Rajikha	Scientist/Engineer-SC	19.05.2006
2.	Lokesh Garg	Scientist/Engineer-SD	29.05.2006
3.	Rakesh Kaur	Scientist/Engineer-SD	07.02.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion System

Centre, Valiamala, of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2006 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted
1.	Shri/Smt./Kum. Narayanan G.	Scientist/Engineer-SG
2.	Rajan P.	Scientist/Engineer-SF
3.	Madhu Kumar T.	Scientist/Engineer-SF
4.	Harikumar T. R.	Scientist/Engineer-SF
5.	Prasad S.	Scientist/Engineer-SF
6.	Shaji V. P.	Scientist/Engineer-SF
7.	Xavier M.	Scientist/Engineer-SF
8.	Sudhakaran G.	Scientist/Engineer-SF
9.	Thimothy Francis C.	Scientist/Engineer-SF
10.	Suresh Mathew Thomas	Scientist/Engineer-SF
11.	Manoharan N.	Scientist/Engineer-SE
12.	Muthukumar P.	Scientist/Engineer-SE
13.	Baiju A. P.	Scientist/Engineer-SE
14.	Venukuttan C.	Scientist/Engineer-SE
15.	Paramasivam P.	Scientist/Engineer-SE
16.	Vijayan P.	Scientist/Engineer-SD
17.	Mohanachandran Nair K. C.	Scientist/Engineer-SD
18.	Abraham N. J.	Scientist/Engineer-SD
19.	Regi Varughese	Scientist/Engineer-SD
20.	Pukale Vijay Pavan	Scientist/Engineer-SD
21.	Cyriac J.	Scientist/Engineer-SD
22.	Ganesh S.	Scientist/Engineer-SD
23.	Sivakumar B.	Scientist/Engineer-SD
24.	Murugha Dhas K.	Scientist/Engineer-SD
25.	Jeyakumar P.	Scientist/Engineer-SD
26.	John Samuel Sampath Paul	Scientist/Engineer-SD
27.	Chandiran Gandiji E.	Scientist/Engineer-SD
28.	Induchudan K.	Scientist/Engineer-SC
29.	Raju C.	Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No.7/1(2)/2007-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, the following Scientists/Engineer in the Liquid Propulsion System Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
1.	Shri/Smt./Kum. S. Pitchiah	Scientist/Engineer-SE	17.11.2005
2.	A. Chandrasekharan	Scientist/Engineer-SE	01.03.2006
3.	M. Gani	Scientist/Engineer-SE	12.05.2006
4.	Abhishek Gupta	Scientist/Engineer-SC	19.04.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No.7/1(2)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion System Centre, Valiamala, of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted	Date of Promotion
1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Mohammed Muslim	Outstanding Scientist	01.07.2006
2.	Anadi Kanta Ray	Scientist/Engineer-H	01.07.2006
3.	Jacob Panicker P. C.	Scientist/Engineer-SG	01.07.2006
4.	Dr. Balachandran P.	Scientist/Engineer-SG	01.07.2006
5.	Dr. Narayanan V.	Scientist/Engineer-SG	01.07.2006
6.	Nageswaran G.	Scientist/Engineer-SG	01.07.2006
7.	V. Ravi	Scientist/Engineer-SF	01.07.2006
8.	R. Rajasekharan	Scientist/Engineer-SF	01.07.2006
9.	Mathew George	Scientist/Engineer-SF	01.07.2006
10.	Ramesh G.	Scientist/Engineer-SF	01.07.2006
11.	Assiz M. P.	Scientist/Engineer-SF	01.07.2006
12.	Regi Kumar G.	Scientist/Engineer-SF	01.07.2006
13.	Harikumar B.	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
14.	Gopakumar N.	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
15.	Roykuttan K. K.	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
16.	Babu M.	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
17.	Umesh H. M.	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
18.	Anruth M.	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
19.	Rekha K. R.	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
20.	S. Murugan	Scientist/Engineer-SE	01.07.2006
21.	Gokuldas K.	Scientist/Engineer-SD	01.07.2006
22.	Surya Mani Tripathi	Scientist/Engineer-SD	03.07.2006
23.	Deepak Kumar Agarwal	Scientist/Engineer-SD	01.07.2006
24.	Devesh Kumar Ojha	Scientist/Engineer-SD	01.07.2006
25.	Aby Issac	Scientist/Engineer-SD	01.07.2006
26.	Mahesh Prabhakar Yeole	Scientist/Engineer-SD	01.07.2006

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
27.	Chandrasekharan Nair S.	Scientist/Engineer-SD	01.07.2006
28.	Hareez P. B.	Scientist/Engineer-SC	01.07.2006
29.	Ramachandran Pillai C. G.	Sr. Admn. Officer	02.06.2006
30.	Joseph P. A.	Sr. Admn. Officer	05.06.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

The 29th June 2007

No.10/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint Shri Nageswara Rao, to the post of Scientist/Engineer 'SC' in the Civil Engineering Division, SAC, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 23.08.2005 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No.10/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientist/Engineer to the posts mentioned against each in the Civil Engineering Division, SAC, Ahmedabad/VSSC, Thiruvananthapuram/Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of dates mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Centres	Date of assumption of Charge
	Shri/Smt./Kum.			
1.	Mathew Varghese	Scientist/Engineer-SF	VSSC, Thiruvananthapuram	01.01.2006
2.	Sanjeev Kumar	Scientist/Engineer-SE	SAC, Ahmedabad	01.01.2006
3.	S. R. Makwana	Scientist/Engineer-SD	SAC, Ahmedabad	01.01.2006
4.	S. Raghavendra Rao	Scientist/Engineer-SD	Sriharikota	01.07.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No.10/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the following officials to the posts mentioned against each in the Civil Engineering Division, SAC, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of date mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Date of assumption of Charge
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Devender Dutt Baloni	Accounts Officer	27.01.2006
2.	Kamala Rajesh	Administrative Officer	01.01.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

The 13th July 2007

No.10/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientists/Engineers to the post mentioned against each in the Civil Engineering Division, SDSC SHAR of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2007 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.	
1.	K. Guruchandra	Scientist/Engineer-SG
2.	S. K. Singhal	Scientist/Engineer-SF

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 9th July 2007

No. A-43014/3/2007-Admn.II.—In pursuance to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. T-2/2007 vide F. No. 11016/4/2007-IES dated 16th May, 2007 Shri N. Velayudhan, has assumed charge as Senior Research Officer in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in Project Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) in the forenoon of 1st June, 2007.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 10th July 2007

No. A-43014/4/2007-Admn.II.—In pursuance to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. T-2/2007 vide F. No. 11016/4/2007-IES dated 16th May, 2007 Smt. Divya Parmar, has assumed charge as Research Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) Hyderabad in the forenoon of 21st June, 2007.

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 10th July 2007

No. A-32014/2/2006-Adm.III.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 31.05.2006, 20.07.2006, 03.11.2006, 22.12.2006 & 29.06.2007, the President is pleased to extend the period of appointment of the following Stenographer Grade 'C' of C.S.S.S. Cadre as Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) on ad-hoc basis in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- upto 31.12.2007 :—

1. Shri P. Sankar
2. Smt. Kamla Pathania
3. Shri C. M. Singh

4. Shri H. S. Gujral
5. Smt. Shanti Sudha Arora
6. Smt. Kulvinder Kaur
7. Shri Rattan Kumar
8. Shri J. L. Kishnani
9. Shri Tilak Raj Arora
10. Shri B. K. Sharma
11. Smt. S. Purushothaman
12. Smt. Harvinder Phulwaria
13. Shri Om Prakash

2. The appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS, Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

PREM PARKASH, Under Secy.

The 13th July 2007

No. A-11013/2/2007-Adm.III.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Sharma, Private Secretary of CSSS Cadre of Planning Commission as Private Secretary in the personal staff of Member (Shri B. K. Chaturvedi) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on co-terminus deputation basis subject to the creation of posts in the personal staff of Member (Shri B. K. Chaturvedi) w.e.f. 14.06.2007 (FN) till Member, Planning Commission desires or demits office, whichever is earlier.

PREM PARKASH, Under Secy.

#### SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 19th July 2007

No. 181/3/2007/(Gr. 'B')/3613.—The Competent Authority hereby appoints the following Assistants, officiating as Section Officers on ad-hoc basis in the Secretariat of the Election Commission of India, as Section Officers on regular basis with effect from 11.07.2007 and until further orders :—

1. Shri B. C. Patra
2. Shri A. K. Pathak
3. Shri S. K. Das
4. Shri Jaydeb Lahiri

2. Further, the above appointments are subject to final outcome of the CWP No. 8225-43/2003—Shri Tapan Datta & Others Vs. Election Commission of India presently pending in the Hon'ble Delhi High Court.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

New Delhi-110001, the 17th July 2007

No. 181/2/2006/3534.—The President is pleased to appoint the following officers as Under Secretary in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Election Commission of India with effect from 18th June 2007 and until further orders :—

1. Shri Narendra N. Butolia
2. Shri Ashish Chakraborty
3. Shri Sumit Mukherjee
4. Shri Birbal Sharma

A. K. MAJUMDAR, Principal Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th July 2007

No. 20/G/2884-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Ranjit Issar, IAS (HY:1972), as Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, with effect from the forenoon of 29th June, 2007.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 12th July 2007

No. 14016/17/2006-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl No.	Name of the officer	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Madan Mohan	D-1/631	04.04.1950
2.	Mahabir Singh	D-1/632	10.11.1949
3.	Amarjeet Singh	D-1/633	04.03.1949
4.	Subhash Chander	D-1/53	13.04.1950

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi-110001, the 23rd July 2007

No. 14046/40/2007-UTS.I.—Shri N.L. Chakma, a member of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre of Indian Administrative Service (1998 Batch), expired on 20th May 2007.

V. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 24th July 2007

No. PF/G/185-Ad.V.—On attaining the age of superannuation, Shri S. Farukh Hamid, Dy. Director General (Procurement) will retire from Govt. Service w.e.f. the afternoon of 31st July, 2007.

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

The 25th July 2007

No. PF/G/77-Ad.V.—On attaining the age of superannuation, Shri R. B. Gupta, Assistant Director (Procurement) will retire from Govt. Service w.e.f. the afternoon of 31st July, 2007

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 13th July 2007

No. A-32013/2/2007-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Smt. Manisha Bhatnagar, a permanent Section Officer of CSS cadre of Department of Personnel & Training, to Grade-I of CSS as Under Secretary purely on ad-hoc basis in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 5th July, 2007, until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or claim seniority in the Grade I. The ad-hoc appointment can be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

The 23rd July 2007

No. A. 32013/1/2007-Ad.I (G).—On his promotion to Selection grade of CSS (Deputy Secretary) on adhoc basis, the President is pleased to appoint Shri V. Peddanna, CSS as Deputy Secretary purely on an ad-hoc basis in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 11th June, 2007

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 17th July 2007

No. 39019/02/2007-Estt (B).—The President is pleased to appoint Prof. Purushottam Agrawal former professor and Chairperson, Centre of Indian Languages, School of Language, Jawaharlal Nehru University, New Delhi as member, Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 02nd July, 2007.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

No. 39019/03/2007-Estt (B).—The President is pleased to appoint Shri Subir Dutta, Member, Union Public Service Commission as Chairman, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 30th June, 2007.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

No. 39019/03/2007-Estt (B).—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Gurbachan Jagat has demitted the office of Chairman, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 30th June, 2007.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 20th July 2007

No. A-19012/2/2005-PA.—Shri Kundan Bharti, a Central Secretariat Service officer, presently working as Section Officer, in the Ministry of Overseas Indian Affairs, shall henceforth be known as Shri Kundan Bharti Sinha.

V. K. BHATIA, Under Secy.

No. A-19012/3/2005-PA.—Shri Rajiv Kumar, a Central Secretariat Service officer, presently working as Section Officer, in the Ministry of Overseas Indian Affairs, shall henceforth be known as Shri Rajiv Sharma.

V. K. BHATIA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th June 2007

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENTS

No. 42 of 2007 (F. No. A-22011/02/2007-Ad.II).—In exercise of the powers conferred in terms of GOI decision No. (2) under Rule 12 of CCS (CCA) Rules, 1965, the Commissioner of Central Excise (Appeals), Chennai is assigned the additional charge of the post of Commissioner of Customs, (Appeals), Chennai w.e.f. 27.06.2007 till further orders.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 29th June 2007

No. 43 of 2007 (F. No. A-22011/01/2007-Ad.II).—In exercise of the powers conferred in terms of GOI decision No. (2) under Rule 12 of CSS (CCA) Rules, 1965, the following additional charge in the grade of Chief Commissioner of Customs & Central Excise are hereby ordered :—

Sl No.	Name of the post	Additional charge assigned to	period
1.	Chief Commissioner of Customs & Central Excise, Nagpur Zone and Bhopal Zone	Shri Rakesh Sharma, Chief Commissioner of Customs & Central Excise, Pune	From 29.06.2007 till further orders
2.	Chief Commissioner of Customs, Mumbai-I	Shri N. Sasidharan, Chief Commissioner of Customs, Mumbai-II	From 01.07.2007 till further orders

ALOK AGARWAL, Under Secy.

## DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 12th July 2007

No. A-12011/15/03-Ad-IA(Part).—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/15/03-Ad-I dated 8th February, 2006, the term of deputation of Shri V. Prakash in the post of Deputy Director (Budget & Accounts) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs is further extended for the period w.e.f. 10.07.2007 to 27.11.2007 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

This issues with the concurrence of the Department of Personnel and Training Estt. (D) vide DOPT U.O. No. C-177/US(Estt.-D)/07 dated 29th June, 2007.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 13th July 2007

No. A-19012/11/2002-Admn.IA.—Consequent upon his appointment as Executive Director, Asian Development Bank, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has relinquished the charge of the post of Chief Economic Adviser in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 13th July, 2007.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, the 17th July 2007

No. A-19012/19/2007-Admn.IA.—The President is pleased to appoint Dr. Arvind Virmani as Chief Economic Adviser in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the pay scale of Rs. 26,000 (fixed) on deputation on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 16th July, 2007 for a period upto 30th June, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

S. K. VERMA, Dir.

## BANKING DIVISION

New Delhi, the 29th June 2007

No. A-15012/2/2006-DRT.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of

Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby, authorizes Shri S. T. Mahadik, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Ahmedabad, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Pune, in addition to his own charge with immediate effect, until further orders, without any additional remuneration.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-15012/2/2006-DRT.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby, authorizes Shri Kiranlal Pannalal Kotecha, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai and Presiding Officer, Debts, Recovery Tribunal-III, Mumbai, in addition to his own charge with immediate effect, until further orders, without any additional remuneration.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-15012/2/2006-DRT.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby, authorizes Shri Prem Mohan Mishra, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Nagpur, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Aurangabad, in addition to his own charge with immediate effect, until further orders, without any additional remuneration.

A. THOMAS, Under Secy.

The 4th July 2007

No. 44/1/2000-DRT.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby, authorizes Dr. S. D. Singh, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata, in addition to his own charge with immediate effect, without any additional remuneration.

A. THOMAS, Under Secy.

## DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 20th July 2007

No. 9/3/2005-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List of Deputy Secretaries for the year 2000 and in terms of O.M. No. 4/2/2006-CS.I(D) dated 27th June, 2007 of the Department of Personnel & Training, Shri S. K. Nag, a regular Under Secretary of the Central Secretariat Service



(Select List 1991), is appointed on promotion on a regular basis, to the post of Deputy Secretary in the Department of Disinvestment in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 1st July, 2007.

S. K. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 11th June 2007

No. PFG(934)/07-Ad.I.—Consequent on his promotion to the Senior Time Scale of the Indian Economic Service (IES) vide Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2007-IES dated 28.03.2007, Shri Bharat Lal Meena, IES assumed the charge of the post of Deputy Director (Research)

in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 7th June, 2007.

R. C. TULLY, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the July 2007

No. A-22012/1/06-ES-II.—Consequent upon her appointment as Chief Controller of Accounts Ms Vineeta Barwa, ICAS (1987) has assumed duties in the O/o Chief Controller of Accounts, Department of Commerce (Supply Division), New Delhi in the forenoon of 02.07.2007

M. K. ANAND, Dir.

#### (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 29th June 2007

No. A-32019/1/2001-E.I.—The President is pleased to appoint the following Technical Officers of this Department to officiate, on adhoc basis, in the post and for the period as shown against each :—

Sl. No.	Name and substantive post held	Adhoc post held with date of initial appointment	Extension of Adhoc Appointment	
			From	To
1	2	3	4	5
1.	S/Shri Sushil Kumar Dev. Officer (Engg)	Ind. Adviser (Engg) 30.11.2000	01.07.2007	31.07.2007 (date of retirement)
2.	S. P. Taneja Dev. Officer (Engg)	Ind. Adviser (Engg) 01.04.2005	-do-	31.08.2007 (date of retirement)
3.	A. K. Sanghi Dev. Officer (Engg)	Ind. Adviser (Engg) 01.12.2005	-do-	31.12.2007
4.	N. H. Malkampate DO (Chem)	Ind. Adviser (Chem) 01.01.2005	-do-	31.07.2007 (date of retirement)
5.	S. K. Jain-II DO (Engg)	ALA (Engg) 01.05.2005	-do-	31.12.2007
6.	V. C. Agarwal DO (Engg)	ALA (Engg) 01.12.2005	-do-	-do-
7.	D. C. Suri DO (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 25.07.2003	-do-	-do-
8.	Sushil Lakra DO (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 01.10.2003	-do-	-do-
9..	B. K. Mishra DO (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 12.08.2004	-do-	-do-
10.	K. K. Sinha DO (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 01.09.2004	-do-	-do-
11.	Sanjay Chavre ADO (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 01.03.2005	-do-	-do-
12.	K. K. Tiwari DO (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 08.07.2005	-do-	-do-
13.	Gajraj Singh ADO (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 01.08.2005	-do-	-do-
14.	R. K. Tripathi ADO (Engg)	Sr. Dev. Officer (Engg) 01.12.2005	-do-	17.07.2007 (date of vol. retirement)

1	2	3	4	5
15.	Shaish Kumar Dev. Officer (Chem)	Sr. Dev. Officer (Chem) 04.02.2000	01.07.2007	31.12.2007
16.	N. C. Tiwari DO (Chem)	Sr. Dev. Officer (Chem) 01.01.2005	-do-	-do-
17.	N. L. Goswami ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 20.06.2001	-do-	-do-
18.	Mohd. Zakaria Khan Yusufzai ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 20.06.2001	-do-	-do-
19.	A. P. Singh ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 04.07.2002	-do-	-do-
20.	A. M. Balraj ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 04.07.2002	-do-	-do-
21.	S. K. Jain-III ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 01.10.2003	-do-	-do-
22.	B. C. Nayak ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 01.09.2004	-do-	-do-
23.	R. K. Jaiswal ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 12.08.2004	-do-	-do-
24.	Sundeep Chauhan ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 01.03.2005	-do-	-do-
25.	S. S. Gupta ADO (Engg)	Dev. Officer (Engg) 01.07.2005	-do-	-do-
26.	S. S. Bose ADO (Chem)	Dev. Officer (Chem) 01.09.1997	-do-	-do-
27.	Dr. K. R. Murthy ADO (Chem)	Dev. Officer (Chem) 01.01.2005	-do-	-do-

2. The above appointments have been ordered purely on adhoc basis and will not confer any right on the officers to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc. The Government reserves the right to terminate the adhoc appointment without assigning any reason or giving notice etc. to the officers concerned.

J. J. KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC  
ENTERPRISES  
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 19th July 2007

No. 19011/200/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri B.S. Meena, IAS (MH:75) as Secretary, Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE), Department of Public Enterprises in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/-w.e.f. 05.07.2007 (FN) and until further orders.

K. D. TRIPATHI, Jt. Secy.

New Delhi-110003, the 19th July 2007

No. 19011/197/2006-Admn.—Consequent upon her transfer for appointment as Additional Secretary Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence vide Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Deptt. of Personnel & Training's communication No. 22/8/2007-EO(SM.I) dated 04.07.2007, Smt. Neelam Nath, IAS (JH:75) Secretary, Board for Reconstruction of Public Sector

Enterprises (BRPSE), Department of Public Enterprises relinquished charge w.e.f. 09.07.2007 (FN).

D. DWARAKANATH, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 20th July 2007

No. A-19011/16/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S.K. Mohanty, as Under Secretary (Grade I of CSS) on adhoc basis in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 20.07.2007 (F/N)

In terms of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/6/2006-C.S. I (Desk) dated 04.07.2007, the appointment will be subject to the following conditions:—

- The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- Adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION  
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 18th July 2007

No. A-12011/11/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Manish Prasad in the post of Assistant Professor in the Indian Institute of Legal Meteorology, Ranchi in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of the 3rd July, 2007 and until further orders.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-32012/1/2002/Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/61/2005-CS.I dated 03.07.2007, the President is pleased to extend the adhoc appointment of the following regular Assistants of CSS Cadre of this Department as Section Officer in the Department of Consumer Affairs in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- up to 31.12.2007 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions of adhoc promotion intimated from time to time :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Date from which officiating as SO
1.	865/89	Shri D. C. Devgune	25.03.2004
2.	871/89	Shri V. K. Sehgal	25.03.2004
3.	872/89	Shri Ombir Singh	06.04.2004
4.	878/89	Shri Amarjit Singh	01.04.2004
5.	942/89	Shri Gopal Singh	25.03.2004
6.	383/91	Smt. Shailesh Kumari	12.10.2006

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 2nd July 2007

No. A-19013/03/2003-Admn.I.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 30th December, 2003, the President is pleased to extend the term of deputation of Dr. Virendra Shanker, Scientist 'F', GR.IV(5), National Physical Laboratory, New Delhi as Scientific Attache in the Embassy of India, Tokyo, Japan in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- upto 29.09.2007 or until further orders, whichever is earlier.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A-19013/02/2003-Admn.I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 1st September, 2003, the President is pleased to extend the term of deputation of Shri Pramod Shukla, Scientist 'E', Defence Electronics Application Laboratory, Ministry of Defence (R&D Orgn.), Dehradun as Scientific Attache in the Embassy

of India, Moscow in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- upto 01.09.2007 or until further orders, whichever is earlier.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A-19013/01/2003-Admn.I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 10th July, 2003, the President is pleased to extend the term of deputation of Dr. K. K. Dwivedi, Scientist 'F', Department of Science & Technology as Scientific Attache in the Embassy of India, Washington, USA in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- upto 26.08.2007 or until further orders, whichever is earlier.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

New Delhi-110016, the 10th July 2007

No. A-19014/5/89-Admn.I(A).—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 35034/1/97-Estt(D) dated 9th August, 1999, the President is pleased to grant Shri N. P. Rawale, Junior Documentation Officer in the Department of Science & Technology the second financial upgradation in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 05.01.2007 under Assured Career Progression scheme (ACP).

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

The 11th July 2007

No. A-19014/03/2007-Admn.I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 4th July, 2007, the President is pleased to appoint Dr. Arindam Bhattacharya as Scientist 'C' in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on temporary basis in the department of Science & Technology w.e.f. 02.07.2007 (FN) and until further orders.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 9th July 2007

No. A-12021/2/2006-CPW.—The President is pleased to continue assignment of additional charge of the post of Chairman, Central Pollution Control Board to Shri J. M. Mauskar, IAS (AM : 77) Joint Secretary in the Ministry of Environment & Forests for a further period of six months beyond 06.03.2007.

S. K. AGRAWAL, Dir. (A)

New Delhi-110003, the 13th July 2007

No. A-32012/5/2005-P-I(A).—The President is pleased to appoint the following Scientists in the Ministry of Environment and Forests to the post mentioned against names, on promotion under the modified flexible Complementing Scheme

(FCS), with effect from 02.07.2007 (forenoon) until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer, Designation & Scale of pay	Promoted as
1.	Dr. Sujata Khaparde, Scientist 'D' 12,000-375-16,500/-	Scientist 'E' in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-
2.	Dr. Tashi Wangdi, Scientist 'D' 12,000-375-16,500/-	Scientist 'E' in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-
3.	Dr. P. S. Rawat, Scientist 'B' 8,000-275-13,500/-	Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-
4.	Shri Om Prakash, Scientist 'B' 8,000-275-13,500/-	Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-

M. L. WADHWANI, Under Secy.

**MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH & FW)**

New Delhi, the 12th July 2007

No. A-32013/01/2007-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 1999 & 2000 for appointment to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2006-CS.I, dated 27th June, 2007, the following Grade-I officers of the CSS in the Department of Health & Family Welfare are hereby appointed to the Selection Grade of CSS on regular basis with effect from the date shown against them :—

1. Shri J. K. Trikha, 01.07.1999 (For 1999)
2. Shri S. K. Sethi, 01.07.1999 (For 1999)
3. Shri Karnail Singh, 01.07.1999 (For 1999)
4. Dr. Anil Kumar, 01.07.2000 (For 2000)
5. Shri Hari Ram Joshi, 01.07.2000 (For 2000)

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

No. A-12023/3/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri V. Santosh Kumar, IRS (C&CE : 92) as Private Secretary to the Minister of State for Health & Family Welfare (Smt. Panabaka Lakshmi) in the Ministry of Health & FW at the level of Director for a period of five years w.e.f. the forenoon of 11th July, 2007 or till he ceases to function as Private Secretary to the MOS(H&FW) or until further orders, whichever is earlier.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

**MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,  
DAIRYING & FISHERIES)**

New Delhi, the 19th July 2007

No. 3-5/2003-Fy. (Admn.).—The President is pleased to appoint Shri M. Neelakandan in the post of Senior Instructor (Fishery Biology) (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/-, Central Institute of Fisheries, Nautical

and Engineering Training, Cochin with effect from 28.05.2007 (forenoon).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**

New Delhi-110001, the 1st June 2007

No. A-12022/2/2006-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Mishra, IRTS (90) as Director in the Ministry of Rural Development for a period of 5 years with effect from the forenoon of 8th June, 2007 or until further orders, whichever event take place earlier.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 5th July 2007

No. A-19014/6/2001-Estt.I.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri S. K. Batra, CSS, Deputy Secretary in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development retired from Government Service with effect from 30.06.2007 (AN). Accordingly, Shri Batra relinquished the charge of the post of Deputy Secretary with effect from 30.06.2007 (AN).

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 6th July 2007

No. A-12022/4/2006-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri T. Srinivas, CSS as Deputy Secretary (ad hoc), in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 2nd July, 2007.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

**MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT**

New Delhi, the 18th July 2007

No. 4-8/2007-Admn.—The President is pleased to relieve Shri Nachiketa Kapur resident of House No. 10-B, Ganga Ram Hospital Road, New Delhi of his post of Private Secretary to the Minister of State (IC), Women and Child Development, w.e.f. 18.07.2007 (AN).

(Smt.) S. P. MUNJAL, Under Secy.

**MINISTRY OF CULTURE**

New Delhi, the 4th July 2007

No. A-19011/2/2005-Estt.—Consequent upon inclusion of her name in the Select List for the year 2000, the President is pleased to appoint Dr. Parvinder Kaur, a regular Grade-I Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis w.e.f. 01.07.2000.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

The 6th July 2007

No. A-19011/2/2001-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 1999, the President is

pleased to appoint Shri Sudesh Kumar, a regular Grade-I Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis w.e.f. 01.07.1999.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 20th July 2007

No. 3-7/2004-NI.II/DD.IV.—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Ms. Purnima Singh, IRS (IT : 78), Joint Secretary (Disability Division) in the Ministry of Social Justice & Empowerment, as an Ex-Officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance & Development Corporation with effect from 25th June, 2007 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier, vice Shri G. N. Pegu, Joint Secretary, who superannuated from Government service on 31.12.2006.

K. N. MISHRA, Under Secy.

#### NATIONAL COMMISSION FOR DENOTIFIED, NOMADIC AND SEMI-NOMADIC TRIBES

New Delhi-110066, the 19th July 2007

No. DNTC/1/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Meena Radhakrishna, Reader in Department of Sociology, University of Delhi, to the post of Director (Research), Group 'A'-Gazetted in the National Commission for Denotified, Nomadic & Semi-Nomadic Tribes, New Delhi on deputation basis, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- from 01.07.2007 to 31.01.2008 or until further orders whichever is earlier.

LAKSHMI CHAND, Member Secy.

No. DNTC/1/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. C. R. Sathyanarayanan, Anthropologist (Cultural) in Anthropological Survey of India, Kolkata to the post of Deputy Director (Research), Group 'A'-Gazetted in the National Commission for Denotified, Nomadic & Semi-Nomadic Tribes, New Delhi on deputation basis, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 25.06.2007 to 05.02.2008 or until further orders, whichever is earlier.

LAKSHMI CHAND, Member Secy.

#### NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

New Delhi-110003, the 16th July 2007

No. 15-29/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, IAS (UP : 73) as Secretary in the National Commission for Minorities.

2. Shri Anil Kumar has assumed charge of the office of Secretary, National Commission for Minorities with effect from 16th July, 2007 (forenoon).

P. M. S. NARAYANAN, Under Secy.

#### NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

New Delhi-110003, the 31st July 2007

No. 10/1/NCST/07-Admn.—In pursuance of Rule 48-A of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 [being applicable to All India Services vide the All India Services (Conditions of Service-Residuary Matters) Rules, 1960], the President is pleased to accept the request (dated 3rd July, 2007) for voluntary retirement of Shri K. K. Gupta, IFS (HP : 71), Secretary, National Commission for Scheduled Tribes in waiver of the normal notice period of three months having regard to the provisions of Sub-Rule (3-A)(a) & (b) of these Rules and allow him to retire from Government service w.e.f. the forenoon of 31st July, 2007.

K. N. SINGH, Jr. Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 24th May 2007

No. A-32013/12/2001-Admn.II/Admn.I.—In pursuance of this Department Order No. F.No. A-32013/12/2001-Admn.II/Admn.I dated 24.05.2007 and CS.I(D), Department of Personnel & Training OM No. 8/2/2006-CS.I(D) dated 28.04.2007, Shri Mohinder Singh, Deputy Secretary of CSS in the Department of Telecommunications is hereby appointed as Director in the Department of Telecommunications, with effect from the forenoon of 30th April, 2007.

2. The appointment to the post of Director is by upgradation of a post of Deputy Secretary, as a measure personal to him.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 19th June 2007

A-36-1/2007-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Chandolia, IES (1984) as Private Secretary to the Minister of Communications & Information Technology (Shri A. Raja) at the level of Director with effect from the forenoon of 16th May, 2007, for the balance period of his five years tenure i.e. upto 08.02.2010 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs earliest.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 20th July 2007

No. E(O)III-2007/RN/19.—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri R. V. S. Raghava Rao, Group 'B' officer of Traffic (Transportation) and Commercial Department of South Central Railway, has resigned from Railway service with effect from 09.04.2007.

MATHEW JOHN, Secy.  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS (DEPTT. OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 12th July 2007

No. A-32014/2/2004-E.II(B).—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training's OM No. 5/8/2006-CS.II dated

01.03.2007 and 29.06.2007, the President is pleased to appoint Smt. Reema Malhotra, Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Planning Commission as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Road Transport & Highways on ad-hoc basis w.e.f. 02.07.2007 (FN) for the period upto 31.12.2007 or until further orders, whichever is earlier.

B. N. MISHRA, Under Secy.

### MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi, the 4th July 2007

No. 6/392/06-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Bhanu Surender, a regular Section Officer on the CSS Cadre of the Ministry of Civil Aviation, to the post of Under Secretary in the Ministry of New and Renewable Energy, purely on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 28th December, 2006.

2. The ad hoc promotion of Shri Bhanu Surender shall not confer upon him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim in the Grade I of CSS.

S. S. BEDI, Under Secy.

### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 11th July 2007

No. 14/2007 (F. No. 2/6/05-Adm.II.).—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel & Training O.M. No. 4/2/2006-CS.I(D) dated the 27th June, 2007, S/Shri O. S. Narula, K. K. Chug and Smt. Nirmala Rao, presently officiating as Deputy Secretaries in the Ministry of Power, on ad hoc basis, are appointed to the Selection Grade of the CSS (Deputy Secretary) on regular basis against the Select List year 1999.

2. Accordingly, they are deemed to have been appointed to the Selection Grade of the CSS with effect from the 1st July, 1999, on regular basis, for the purpose of approved service and for fixing of pay as Deputy Secretaries on a notional basis. They will be entitled to the actual benefit of higher pay on account of notional refixation of pay from the date of their actual appointment as Deputy Secretaries, on ad hoc basis.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 16th July 2007

No. 15/2007 (F. No. 2/6/05-Adm.II.).—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel &

Training O.M. No. 4/2/2006-CS.I(D) dated the 27th June, 2007, S/Shri O. S. Narula, K. K. Chug and Smt. Nirmala Rao, presently officiating as Deputy Secretaries in the Ministry of Power, on ad hoc basis, are appointed to the Selection Grade of the CSS (Deputy Secretary) on regular basis against the Select List year 1999.

2. Accordingly, they are deemed to have been appointed to the Selection Grade of the CSS with effect from the 1st July, 1999, on regular basis, for the purpose of approved service and for fixing of pay as Deputy Secretaries on a notional basis. They will be entitled to the actual benefit of higher pay on account of re-fixation of pay with effect from 09.08.1999 in accordance with the provisions contained in the Department of Personnel & Training OM No. 4/21/2004-CS.I dated 11.03.2005.

3. This issues in supersession of this Ministry's Notification No. 14/2007 (F. No. 2/6/05-Adm.II) dated 11.07.2007.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 17th July 2007

No. 26/2007 (F. No. A-38012/1/2007-Adm.I).—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service Central Electricity Authority retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th June, 2007 on attaining the age of superannuation :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation
1.	Shri P. S. Matharu	Director
2.	Shri Aditya Kumar	Director
3.	Shri G. S. Dass	Deputy Director
4.	Shri N. C. Goel	Chief Engineer
5.	Shri Abhay Kr. Jain	Director
6.	Shri M. S. Mathur	Assistant Director Grade-I

R. C. ARORA, Under Secy.

### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 13th July 2007

No. 15/2007 (F. No. 22/534/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Meeta Singh, IRS (93), Deputy Secretary (Coord), Ministry of Water Resources, as Director (Coord) in the Ministry of Water Resources, as a measure personal to her, in the scale of Pay of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 01.07.2007. Her balance tenure in the Ministry will be upto 01.12.2009, or until further orders, whichever event occurs earlier.

N. K. GUPTA, Under Secy.